

भारत सरकार

राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय

लाजपत नगर, नजदीक मूलचंद मेट्रो स्टेशन,

नई दिल्ली - 110024 दूरभाष: 011-26436788, 26435270

प्रवेश सूचना

मास्टर ऑफ नर्सिंग पाठ्यक्रम, (2020-21)

(दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त)



मास्टर ऑफ नर्सिंग (2 वर्षीय) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम के आरंभ होने की संभावित तिथि 20 जुलाई 2020 है। निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं विवरण पत्रिका महाविद्यालय की वैबसाइट (www.rakcon.com) से 19.02.2020 से 23.03.2020 तक डाउनलोड किये जा सकते हैं और रुपये 550/- का बैंक ड्राफ्ट जो "Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing" के नाम देय हो, के साथ 23.03.2020 सायं 5:00 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट की तिथि 19.02.2020 से 23.03.2020 के बीच होनी चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के भुगतान नहीं करने पर डाउनलोड आवेदन प्रपत्र को रद्द कर दिया जाएगा और इससे संबन्धित कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। पिछले वर्षों के आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23.03.2020 साँय 5.00 बजे तक है। आवेदन प्रस्तुत करने की विधि विवरण पत्रिका में दी गयी है।

प्रवेश संबंधी अपेक्षाएं

प्रत्याशी को 55% सफल प्राप्तांकों सहित दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.एससी. (आनर्स) परीक्षा 12+4 वर्षीय या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा पास होनी चाहिए एवं किसी संस्था/ विशेष अध्ययन संस्थान अथवा जनस्वास्थ्य एजेंसी से नर्सिंग में एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव की गणना दिनांक 23 मार्च 2020 तक मानी जाएगी। प्रवेश हेतु चयन विधि का ब्यौरा पाठ्यक्रम की विवरण पत्रिका में दिया गया है। दिनांक 26 अप्रैल 2020 (रविवार) को 10:00 बजे प्रवेश पत्र में दिये गये स्थान पर होने वाली चयन परीक्षा होगी। आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2020 सायं 5:00 बजे तक है। आवेदन प्रस्तुत करने की विधि विवरण पत्रिका में दी गई है। चयनित प्रार्थियों के नाम विवरण पत्रिका में दी गई तिथि के अनुसार महाविद्यालय के सूचनापट्ट एवं वैबसाइट (www.rakcon.com) पर दिये जाएंगे। इस विषय में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार/ दूरभाष सूचना नहीं दी जाएगी।

सूचना: आवेदन प्रपत्र सभी कार्य दिवसों यानि सोमवार से शुक्रवार, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर समय अपराहन 2:00 बजे से 5:00 बजे तक जमा किए जाएंगे।



भारत सरकार
राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय
लाजपत नगर, नजदीक मूलचंद मेट्रो स्टेशन,
नई दिल्ली-110024 दूरभाष: 011-26436788, 26435270

प्रवेश सूचना
बी. एस. सी. (ऑनर्स) नर्सिंग पाठ्यक्रम (2020-21)
(दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त)

बी. एस. सी. (ऑनर्स) नर्सिंग पाठ्यक्रम (4 वर्ष) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम के आरंभ होने की संभावित तिथि 20 जुलाई 2020 है। निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं विवरण पत्रिका महाविद्यालय की वेबसाइट WWW.RAKCON.COM से 05.03.2020 से 17.04.2020 तक डाउनलोड किए जा सकते हैं और रुपये 550/- का बैंक ड्राफ्ट जो "Principal Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing" के नाम देय हो, के साथ 17.04.2020 साँय 5.00 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट की तिथि 05.03.2020 से 17.04.2020 के बीच होनी चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के भुगतान नहीं करने पर डाउनलोड आवेदन प्रपत्र को रद्द कर दिया जाएगा और इससे संबंधित कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। पिछले वर्षों के आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल, 2020 साँय 5.00 बजे तक है। आवेदन प्रस्तुत करने की विधि पत्रिका में दी गयी है।

प्रवेश संबंधी अपेक्षाएं

सीनियर स्कूल प्रमाण- पत्र परीक्षा अथवा भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा इनके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त परीक्षा जिसमें अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान सहित चारों विषयों में प्राप्तांकों का योग 50% अथवा इससे अधिक हो तथा प्रार्थी उपरोक्त प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण हो। वे प्रार्थी जो वर्ष 2020 में होने वाली सीनियर स्कूल प्रमाण- पत्र अथवा समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान सहित परीक्षा में बैठे हों तथा जिसका परीक्षाफल अभी घोषित होना है, आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन हेतु न्यूनतम आयु सीमा दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 को 17 वर्ष है। केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं। दिनांक 14 जून 2020 को प्रातः 10.00 बजे प्रवेश पत्र में दिये गए स्थान पर होने वाली चयन परीक्षा के आधार पर ही दाखिला किया जाएगा

अंतिम चयन के लिए परामर्श की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। चयनित प्रार्थियों के नाम विवरण पत्रिका में दी गयी तिथि के अनुसार महाविद्यालय के सूचनापट्ट एवं वेबसाइट www.rakcon.com पर दिये जाएंगे। इस विषय में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार / दूरभाष सूचना नहीं दी जाएगी।

सूचना : आवेदन प्रपत्र सभी कार्य दिवस यानि सोमवार से शुक्रवार, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, समय अपराह्न 2.00 बजे से 5.00 बजे तक जमा किए जाएंगे।